

Date: February 6, 2025

- 1. The Manager- Listing**
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)
- 2. The Manager- Listing**
BSE Limited
(Scrip Code: 532777)

Sub.: Intimation of Publication of Un-audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Un-audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024 published in the following editions:

- Business Standard (National Daily newspaper) on February 6, 2025
- Business Standard (Daily newspaper of the State) on February 6, 2025

Submitted for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Info Edge (India) Limited**

Jaya Bhatia
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED
(Procurement Department) **TPSODL**

BPR North Star Building,
2nd Floor, Khodasingi, Berhampur, Odisha-760010

NOTICE INVITING TENDER Dt.: 06.02.2025

TP Southern Odisha Distribution Ltd. invites tender from eligible vendors for following:

| Sl. No. | Tender Description | NIT Number | EMD (Rs.) | Tender Fee inclusive of GST (Rs.) | Last date and time of Payment of Tender Fee |
|---------|---|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Rate Contract for Auditorium and Canteen Interior Work of Hostel & Management Centre at TPSODL | TPSODL/OT/2024-25/051 | 2,00,000/- | 5,000 | 16.02.2025; 18:00 Hrs. |
| 2 | Rate contract for manpower services at call center and various customer services Office, TPSODL | TPSODL/OT/2024-25/053 | 4,00,000/- | 5,000 | 16.02.2025; 18:00 Hrs. |

For detailed tender, please visit Tender Section on TPSODL website <https://www.tpsouthernodisha.com>

KEMP & COMPANY LIMITED
Regd. Office: DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 025 CIN: L24239MH1982PLC000047
TEL: 022 66539000 FAX: 022 66539089
Email: kemp-investor@kempnco.com WEB: www.kempnco.com

Extract of statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2024

| Sr. No. | Particulars | ₹ (in Lakhs) | | |
|---------|--|--|------------------------|------------------------|
| | | For the Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited) | 31.12.2023 (Unaudited) | 31.12.2024 (Unaudited) |
| 1 | Total Income from Operations | 79.10 | 78.02 | 241.58 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | (28.58) | (29.05) | (96.08) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | (28.58) | (29.05) | (96.08) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | (21.53) | (16.10) | (72.85) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | (1,622.43) | (1,747.58) | (945.69) |
| 6 | Equity Share Capital | 108.02 | 108.02 | 108.02 |
| 7 | Reserves excluding revaluation reserve as at balance sheet | - | - | - |
| 8 | Basic / Diluted Earning per share | (1.99) | (1.49) | (6.74) |

NOTES:
1. The above is an extract of detailed format of Quarterly Financials Results filed with BSE Ltd under regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of said quarterly financials results are available on the exchange website www.bseindia.com and on the company's website www.kempnco.com.
2. The Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2024 have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 5th February, 2025.

On behalf of Board of Directors for KEMP & COMPANY LTD.
Shalini D. Piramal
Managing Director
D.I.No - 01365328

Place : Mumbai
Date : 5th February, 2025

Mindteck (India) Limited
CIN:L30007KA1991PLC039702
A.M.R Tech Park, Block 1, 3rd Floor, # 664, 23/24, Hosur Main Road
Bommanahalli, Bangalore - 560 068 Ph. No.: +91 (80) 4154 8000
Fax: +91 (80) 4112 5813 www.mindteck.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024
(See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (Rs in lacs, except as otherwise stated)

| Particulars | Consolidated | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| | Quarter Ended December 31, 2024 | | Quarter Ended September 30, 2024 | | Quarter Ended December 31, 2023 | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Total income from operations | 10,402 | 10,823 | 9,575 | 32,040 | 28,763 | 38,553 |
| Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 932 | 901 | 873 | 2,798 | 2,567 | 3,353 |
| Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (note 4) | 932 | 901 | 873 | 2,625 | 2,567 | 3,353 |
| Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 793 | 757 | 719 | 2,188 | 2,083 | 2,731 |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) | 742 | 1,087 | 869 | 2,490 | 2,205 | 2,765 |
| Equity Share Capital | 3,185 | 3,185 | 2,490 | 3,185 | 2,490 | 2,512 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | - | - | - | - | - | 19,579 |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (note 5) | 2.49 | 2.38 | 2.31 | 6.90 | 6.70 | 8.69 |
| Basic : | 2.47 | 2.36 | 2.27 | 6.82 | 6.56 | 8.50 |
| Diluted : | | | | | | |

Information regarding Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 (Rs in lacs, except as otherwise stated)

| Particulars | Standalone | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| | Quarter Ended December 31, 2024 | | Quarter Ended September 30, 2024 | | Quarter Ended December 31, 2023 | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Total income from operations | 3,587 | 3,917 | 3,467 | 11,648 | 10,359 | 13,969 |
| Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 441 | 586 | 575 | 1,547 | 1,676 | 2,137 |
| Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 441 | 586 | 575 | 1,547 | 1,676 | 2,366 |
| Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 329 | 441 | 442 | 1,156 | 1,253 | 1,827 |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) | 334 | 424 | 440 | 1,176 | 1,260 | 1,811 |

Notes:
1. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
2. The above Standalone and Consolidated results were reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 05, 2025.
3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
4. During nine months ended December 31, 2024, the company restructured its sales operations in the US, leading to a more streamlined and efficient sales process. This restructuring cost resulted in one time payments to affected employees which are reflected in the quarterly financials.
5. On September 24, 2024, the company issued 63,69,611 fully paid-up bonus shares of Rs. 10 each, in the ratio of 1 bonus share for every 4 fully paid-up equity shares held, to shareholders whose names appeared in the Register of Members as of September 20, 2024, the record date fixed for this purpose. This issuance was approved by the members through a Postal Ballot Notice dated August 08, 2024. The bonus shares will rank equally with the existing equity shares of the company in all respects. As a result of this bonus issue, the company's paid-up capital has increased to Rs. 3,185 lakhs from Rs. 2,548 lakhs. Consequently, the earnings per share (both Basic and Diluted) have been adjusted for all periods presented.
6. The company amended the objectives of the Mindteck Employees Welfare Trust ("Trust") to include employee welfare activities, following the winding-up of the ESOP Scheme 2020 administered by the Trust, effective from November 12, 2024. As a result of this amendment, the Company has merged the financials of the Trust with its Standalone Financial Statements effective November 12, 2024. Consequently, interest income of Rs. 3 Lakhs earned on a Fixed Deposit held by the Trust is now included in the Other Income of the Company's Standalone Financial Statements. Additionally, total reserves of Rs. 613 lakhs, comprising Rs. 548 lakhs from profit on the Sale of Shares and Rs. 65 lakhs in accumulated reserves of the Trust, are now part of the reserves in the Standalone Financial Statements and are designated for the benefit of the Company's employees. The change has no impact on consolidated financial statement.
7. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and also on Company's website (www.mindteck.com)

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anand Balakrishnan
CEO and Managing Director

Place : California, USA
Date : February 05, 2025

INFO EDGE (INDIA) LIMITED
Regd. Office : Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

| Particulars | Amount in ₹ (Mn) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Results on Standalone Basis | | | | | | Results on Consolidated Basis | | | | | |
| | 3 months ended 31/12/2024 | Preceding 3 months ended 30/09/2024 | Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2023 | 9 months ended 31/12/2024 | 9 months ended 31/12/2023 | Year ended 31/03/2024 | 3 months ended 31/12/2024 | Preceding 3 months ended 30/09/2024 | Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2023 | 9 months ended 31/12/2024 | 9 months ended 31/12/2023 | Year ended 31/03/2024 |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1. Total Income from operations (net) | 6,715.20 | 6,560.97 | 5,953.58 | 19,665.21 | 17,726.64 | 23,809.58 | 7,223.96 | 7,008.24 | 6,271.23 | 20,999.26 | 18,789.18 | 25,363.40 |
| 2. Net profit for the period/year (before tax, exceptional items) | 3,414.66 | 3,314.87 | 2,836.71 | 9,772.49 | 8,327.85 | 11,303.92 | 4,168.54 | 3,352.97 | 1,851.39 | 10,815.41 | 6,641.93 | 9,886.11 |
| 3. Net profit for the period/year before tax (after exceptional items) | 2,821.86 | 4,395.30 | 2,836.71 | 10,260.12 | 8,277.85 | 11,132.48 | 3,710.88 | 5,000.48 | 1,904.35 | 12,030.06 | 7,155.90 | 8,780.33 |
| 4. Net Profit for the period/year after tax | 2,001.93 | 858.76 | 2,135.31 | 5,183.55 | 6,221.41 | 8,330.82 | 2,884.17 | 847.34 | 1,194.45 | 6,320.09 | 5,065.93 | 5,945.53 |
| 5. Total Comprehensive income for the period/year (comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | 6,935.72 | 71,501.31 | 25,641.48 | 100,169.15 | 83,502.89 | 147,511.53 | 31,824.13 | 81,701.88 | 26,240.27 | 149,351.95 | 90,252.88 | 169,846.23 |
| 6. Equity Share Capital | 1,295.84 | 1,295.84 | 1,293.84 | 1,295.84 | 1,293.84 | 1,293.84 | 1,295.84 | 1,295.84 | 1,293.84 | 1,295.84 | 1,293.84 | 1,293.84 |
| 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year | | | | | | 253,471.88 | | | | | | 301,331.64 |
| Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised) | | | | | | | | | | | | |
| a) Basic - Profit after tax (after exceptional items) | 15.47 | 6.65 | 16.54 | 40.10 | 48.24 | 64.57 | 18.75 | 1.80 | 11.71 | 38.59 | 39.92 | 44.58 |
| a) Basic - Profit after tax [before exceptional items (net of tax & Deferred tax)] | 20.06 | 19.98 | 16.54 | 58.01 | 48.63 | 65.90 | 22.29 | 15.46 | 11.30 | 55.58 | 35.93 | 53.16 |
| b) Diluted - Profit after tax (after exceptional items) | 15.40 | 6.62 | 16.49 | 39.92 | 48.08 | 64.34 | 18.66 | 1.79 | 11.67 | 38.41 | 39.78 | 44.42 |
| b) Diluted - Profit after tax [before exceptional items (net of tax & Deferred tax)] | 19.96 | 19.89 | 16.49 | 57.74 | 48.46 | 65.66 | 22.18 | 15.38 | 11.26 | 55.32 | 35.81 | 52.96 |

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and (www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).
2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

For & on behalf of the board
Hitesh Oberoi
Managing Director
DIN : 01189953

Place : Noida
Date : February 05, 2025

